



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 633 राँची, मंगलवार 11 अग्रहायण 1936 (श०)

2 दिसम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

2 दिसम्बर, 2014

संख्या-1/पी0-112/2002 का. -11405--प्रधान सचिव, पंचायती राज, एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री के0 विद्यासागर, भा.प्र.से. (झा:85) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आभा काँशी,

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 633—50 ।